
STERLING TOOLS LIMITED

CIN: L29222DL1979PLC009668



Fax: 91-129-227 7359 E-mail: sterling@stlfasteners.com

website : stlfasteners.com



By NEAPS	By Listing Centre
National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza", Plot No-C/1 G Block, Bandra–Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai-400051	General Manager BSE Limited 1st Floor, P. J. Towers Dalal Street, Fort Mumbai – 400001
Security Code No.: STERTOOLS	Security Code No.: 530759

Date: 5th February 2025

Sub: Newspaper Publication of Financial Results for the third quarter and nine months ended 31st
December 2024

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulations 47 read along with Schedule III of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('the Regulation"), please find enclosed herewith a copies of Extracts of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the third quarter and nine months ended 31st December 2024 published in English-Financial Express and Regional (Hindi)- Jansatta newspaper on 5th February 2025.

You are requested to kindly take the same on your records.

Sincerely,

For STERLING TOOLS LIMITED

Abhishek Chawla

Company Secretary & Compliance Officer

M.No.-34399

Encl.: As Above

FINANCIAL EXPRESS

SHREE PRECOATED STEELS LIMITED

CIN: L70109MH2007PLC174206

Regd Office: 1 Ground Floor Citi Mall, New Link Road, Andheri (W), Mumbai - 400 053 Tel: +91-7208182677 | Website: www.spsl.com | E-mail Id: spsl.investors@gmail.com

Extract of the Standalone Unaudited Financial Results for the

Third Quarter/Nine Months ended 31st December, 2024 (Rs. in Lakhs) Standalone

Sr.	Particulars		Quarter Ende	d	Nine Mon	Year Ended	
No.	r di diculai a	31-Dec-24	30-Sep-24	31-Dec-23	31-Dec-24	31-Dec-23	31-Mar-24
		Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Audited
1	Total Income From Operations		34				35
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items)	(16)	(16)	(15)	(45)	(41)	(58)
3	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax (after Exceptional items.)	(16)	(16)	(15)	(45)	(41)	(58)
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	(16)	(16)	(15)	(45)	(41)	(58)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprehensive Profit/Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	(16)	(16)	(15)	(45)	(41)	(58)
6	Paid up Equity Share Capital	414	414	414	414	414	414
7	Other Equity				-1		(569)
8	Earning per Share (of Rs.10 each) (for continuing and discontinued operations)			A MOOTH!	di .		
	1) Basic	(0.39)	(0.39)	(0.36)	(1.09)	(0.99)	(1.40)
	2) Diluted	(0.39)	(0.39)	(0.36)	(1.09)	(0.99)	(1.40)

- 1) The above standalone financial results of the Company have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 4th February, 2025, along with limited review report given by the Statutory
- 2) The above results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('IND AS') notified under Section 133 of the Companies Act 2013, read together with the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.
- 3) The previous year/ quarter figures have been regrouped, re-arranged and re-classified wherever necessary to confirm to current period's
- 4) The results will be available on the Company's website: www.spst.com and have been submitted to the Stock Exchange where the Equity Shares of the company are listed.
- 5) The accounts are prepared on a going concern basis inspite of negative net worth, pending litigation in respect of refund of indirect taxes
- For Shree Precoated Steels Limited

Place: Mumbai Date: 4th February, 2025



Harsh L. Mehta Managing Director

UDAY JEWELLERY INDUSTRIES LIMITED Regd. Office: 2nd Floor, 3-6-307/1, 3-6-307/2, 3-6-308/1, Hyderguda Main Road, Simple Natural Systems,

Basheer Bagh, Hyderabad, Telangana, 500004 Website: www.udayjewellery.com; CIN: L74900TG1999PLC080813 Extract of Standalone Un-Audited Financial Results for the Quarter and nine months ended 31st December, 2024 (Rs. in Lakhs)

S No	Particulars	Quarter ended (Unaudited) 31.12.2024	Nine months ended (Unaudited) 31.12.2024	Corresponding quarter ended in previous Year (Unaudited) 31.12.2023
1	Total income from operations	9940.89	20328.66	5475.03
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or extraordinary items)	608.83	1319.09	386.12
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	608.83	1319.09	386.12
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	453.66	983.90	288.95
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	453.66	983.90	288.95
6	Equity Share Capital	2,262.19	2,262.19	2202.19
7	Other Equity (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-
8	Earnings Per Share (for continuing and discontinued operations) - Basic: Diluted:	2.05 2.05	4.46 4.46	1.31 1.31

Notes:

- 1. The above Standalone financial results were reviewed and recommended by the Audit committee, later approved by the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on 04th February 2025. The Statutory Auditors of the Company have carried out a Limited Review of the aforesaid results.
- 2 The Chairman and the Managing Director of the Company has been identified as the Chief Operating Decision Maker (CODM) as defined by IND AS 108, "Operating Segment". The Company operates in one segment only; accordingly, segment information has not been separately disclosed.
- 3 The Statutory Auditors of the company have carried out Limited Review of the aforesaid results and issued an unmodified opinion on the same.
- 4 The figures for corresponding previous year have been re-grouped/re-classified wherever necessary to make them comparable with present results

For and on behalf of Board of Directors

Place: Hyderabad Date: 04-02-2025

Ritesh Kumar Sanghi **Managing Director** DIN: 00628033

PPFAS Mutual Fund

PPFAS Asset Management Private Limited (Investment Manager to PPFAS Mutual Fund)

Registered Office: - 81/82, 8th Floor, Sakhar Bhayan, Ramnath Goenka Marg.

230 Nariman Point, Mumbai - 400 021, Maharashtra, INDIA. Tel.: 91 22 6140 6555 Fax: 91 22 6140 6590. E-mail: mf@ppfas.com. Website: www.amc.ppfas.com CIN No: - U65100MH2011PTC220623

NOTICE CUM ADDENDUM TO THE SCHEME INFORMATION DOCUMENT (SID) AND KEY INFORMATION MEMORANDUM (KIM) OF ALL SCHEMES OF PPFAS MUTUAL FUND AND STATEMENT OF ADDITIONAL INFORMATION (SAI) OF PPFAS MUTUAL FUND ('THE FUND')

Addition to the list of Official Points of Acceptance (OPA):

Investors are hereby requested to note that the Company's branch offices located in the cities of **Chandigarh** and Hyderabad having addresses at SCO 2475-76, 2nd Floor, Sector 22-C, Chandigarh - 160022 and Plot No. 4, H. No. 1-11-254/11/A, 1st Floor, Rama Mansion, Motilal Nagar, Begumpet, Hyderabad - 500016, **Telangana** respectively shall now be considered as an Official Point of Acceptance for the transactions of the Schemes of PPFAS Mutual Fund with effect from February 05, 2025.

All other terms and conditions of the SIDs, KIMs and SAI remains unchanged.

This addendum shall form an integral part of the SID, KIM and SAI of the Fund as applicable and as amended from time to time.

> **For PPFAS Asset Management Private Limited** (Investment Manager to PPFAS Mutual Fund)

Date: February 04, 2025

Place: Mumbai

Director

Sd/-

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS. READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.



CMX HOLDINGS LIMITED

(Formerly known as SIEL FINANCIAL SERVICES LIMITED) CIN No: L74110MP1990PLC007674

Address: Soni Mansion, 12-B, Ratlam Kothi, Indore, Madhya Pradesh, 452001 Email: sielfinancialservices@gmail.com | Website: www.sielfinancial.com

STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED DECEMBER 31, 2024

3-31	Particulars		Quarter End	ed	Nine Mon	Year ended	
Sr. No.		31/12/2024 (Un-Audited)	30/09/2024 (Un-Audited)	31/12/2023 (Un-Audited)	31/12/2024 (Un-Audited)	31/12/2023 (Un-Audited)	31/03/2024 (Audited)
1.	Total Income from Operations	(1,00)	11.86	9.45	21.31	28.61	38.10
2.	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary Items#)	(13.70)	0.52	0.70	(13.44)	36.05	(17.65)
3.	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(13.70)	0.52	0.42	(13.44)	7.80	(17.97)
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(13.70)	0.52	0.42	(13.44)	7.80	(17.97)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(13.70)	0.52	0.42	(13.44)	7.80	(17.97)
6.	Paid Up Equity Share Capital	1132.30	1132.30	1132.30	1132.30	1132.30	1132.30
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) As shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	825	1 1	845	24	36	(1675.41)
8.	Earnings Per Share (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic 2. Diluted	(0.12) (0.12)	0.00	(0.00) (0.00)	(0.12) (0.12)	(0.00) (0.00)	(0.16) (0.16)

- a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/ Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the Quarterly/ Annual Financial Results are available on www.bseindia.com and on the website of the Company www.sielfinancial.com
- b) The above financial results for the quarter ended December 31, 2024, have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors ("Board") in their respective meetings held on February 04, 2025.
- c) The statutory auditors have carried out the limited review of the financial results for the quarter ended December 31, 2024. d) Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules/ AS Rules, whichever
- Corresponding figures of the previous quarter/ year have been regrouped and rearranged wherever necessary.
 - The same can also be accessed by For CMX HOLDINGS LIMITED scanning the QR code provided below. (Formerly known as SIEL FINANCIAL SERVICES LIMITED)

Aveen Kaur Sood Managing Director DIN-02638453



STERLING TOOLS LIMITED

Date: February 04, 2025

Place : Indore

Regd. Office: DJ-1210, 12th Floor, DLF Tower-B, Jasola District Centre, New Delhi-110025 Website: www.stlfasteners.com,E-mail: csec@stlfasteners.com, CIN: L29222DL1979PLC009668

Extract of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the third quarter and nine months ended 31st December 2024

(₹ Lakhs, except per share data) CONSOLIDATED

STANDALONE

		-	LINAL	JDITED RESI	II TS		AUDITED	UNAUDITED RESULTS				AUDITED	
SI. No.	PARTICULARS	Quarter Ended		Year to date		Year Ended	c	Quarter Ended		1000 0	o date	Year Ended	
		31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024	31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024
1	Total income from operations	15,508.12	16,836.81	14,267.62	48,637.48	44,666.91	61,369.79	26,268,90	28,590.65	23,396.52	83,255.86	66,832.00	93,851.11
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	1,160.57	1,607.47	1,172.99	4,314.48	3,563.99	5,174.69	1,776.19	2,305.10	1,752.27	6,474.39	5,048.30	7,180.02
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	1,160.57	1,607.47	1,172.99	4,314.48	3,603.70	5,214.40	1,776.19	2,305.10	1,752.27	6,474.39	5088.01	7,219.73
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	831.58	1,188.98	878.94	3,162.00	2,683.89	3,884.53	1,359.98	1,747.33	1,358.38	4,948.14	3911.47	5,536.50
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the Period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	425.36	1,022.18	822.61	2,573.12	2,627.14	3,538.31	953.31	1,580.17	1,303.37	4,358.10	3856.45	5,188.88
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs.2/- each)	720.48	720.48	720.48	720.48	720.48	720,48	720.48	720.48	720.48	720.48	720.48	720.48
7	Other Equity	(4	2.4	-	-		42,442.02	14	S		2		43,990.37
8	Earnings Per Share (₹ 2/- each)(for continuing and discounted operations) Basic Diluted	2.31 2.28	3.30 3.27	2.44 2.44	8.78 8.69	7.45 7.45	10.78 10.77	3.78 3.73	4.85 4.81	3.77 3.77	13.74 13.59	10.86 10.86	53,500,000,000,000

Date: 04.02.2025

Place: Faridabad

- The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for the quarter & nine months ended 31st December 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed format of the Financial Results of the Company is available on the website of Bombay Stock Exchange Limited (BSE) (www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited (NSE) (www.nseindia.com) and the Company (www.stlfasteners.com). The same can be accessed by scanning the QR code provided below.
- The standalone & consolidated financial results of Sterling Tools Limited ("holding Company") for the guarter and Nine months ended 31st December 2024 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meeting held on 4th Feberuary 2025. The Statutory Auditors of the Holding Company have conducted a limited review of these Consolidated Financial Results.
- The above results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of applicable Indian Accounting Standards ('Ind AS') as notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended), as specified under section 133 of the Companies Act, 2013, other accounting principles generally accepted in India and in compliance with the presentation and disclosure requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- The Board of Directors of the Holding Company had considered and approved the amalgamation of Haryana Ispat Private Limited, a wholly owned subsidiary, by way of a scheme of amalgamation in its meeting dated 1 February 2024. Thereafter, the scheme was filed at the Delhi Bench of the Hon'able National Company Law Tribunal ('the NCLT') and in the last hearing held on 21 January 2025, the NCLT has reserved the order. For and on behalf of the Board of Directors



STERLING TOOLS LIMITED Atul Aggarwal Managing Director DIN No. 00125825

SALE NOTICE UNDER IBC,2016 M/s. BIL ENERGY SYSTEMS LIMITED (In Liquidation) Liquidator's address: 7-1-285, Flat No. 103, Sri Sai Swapna sampada Apartments, Balkampet, Sanjeev Reddy Nagar, Hyderabad, Telangana ,500038

The following Assets and Properties of M/s.BIL ENERGY SYSTEMS LIMITED (in Liquidation having CIN L28995MH2010PLC199691 forming part of Liquidation Estate are for sale by the iguidator through e-auction on "AS IS WHERE IS," "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE

15 BASIS AND INORECOURSE BASIS as per details mentioned in the table below.								
Asset Description	Reserve price (In Rs.)	EMD Amount (In Rs.)	E Auction timings on 20th March 2025					
Sale of Plant & Machinery	24,10,000	2,41,000	2 p.m to 3 p.m					
Last Date for Submis	06-03-2025							

08-03-2025 **Date of Intimation of Qualified Bidders** 15-03-2025 Last date for Inspection 17-03-2025 Last date for EMD 20-03-2025 **E- Auction Date**

Interested applicants may refer to the COMPLETE E-AUCTION PROCESS INFORMATION DOCUMENT containing details

of terms and conditions of online E-Auction, E-Auction Bid form, Eligibility Criteria, Declaration by Bidders, EMD requirement etc., available at website: https://bankauctions.in or through E Mail cirpbel@gmail.com (process specific).

The Liquidator have right to accept or cancel or extend or modify, etc any terms and conditions of E-Auction at any time. He has right to reject any of the bid without giving any reasons. He has right to cancel E-Auction at any time.

E-Auction platform: https://bankauctions.in . Interested bidders are requested to visit the above-mentioned websites and submit a bid.

> Madhusudhan Rao Gonugunta, Liquidator IBBI Reg No.: IBBI/IPA-001/IP-P00181/2017-18/10360 AFA Valid till 31 st Dec 2025 cirpbel@gmail.com (Process Specific) Cell No.8074633502 & 9177715558 For Support Contact Mr. Sudhir: 8919507219 Date: 05.02.2025

PUBLIC NOTICE

Motilal Oswal Financial Services Limited SEBI Registration No.: INZ000158836

Member of Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX) Member ID 55930, BSE Limited (BSE) Clearing No.: 446, National Stock Exchange of India Ltd (NSE) Member ID 10412

Notice is hereby given that the following Authorised Person is/are no longer affiliated as Authorised Person of Motilal Oswal Financial Services Limited with effect from 04 February 2025, any person henceforth dealing with below mentioned Authorised Person should do so at their own risk. Motilal Oswal Financial Services Limited, shall not be liable for any dealing with them.

Name of the Authorised Person LAXMAN SHRIRAM WAGHMARE Trade name of the Authorised Person : LAKSHYA INVEST

Authorised Person Authorised Person

Lacitatige	Registration Number	Registration Date
BSE	AP01044601140926	28 February 2022
NSE	AP0297149821	15 February 2022
MCX	MCX/AP/152187	17 March 2022
Address of AP	SHOP NO. 11, GROUND FL	OOR, AKASH BUILDING,

NEAR BANSILAL TEXTILE, ALANDI DEWACHI, PUNE. MAHARASHTRA, INDIA, 412 105. Reasons Non-adherence to Compliance

S. NO. 120/4,5, MOSHI ALANDI ROAD, DEHU PHATA,

In case of any queries, investors are requested to inform Motilal Oswal Financial Services Limited at the following address within 15 days from the date of issuing

Motilal Oswal Tower, Rahimtullah Sayani Road, Opposite Parel ST Depot, Prabhadevi, Mumbai - 400 025, Maharashtra, India,

Authorised Signatory



CIN: L74899DL1996PLC425162

Registered and Corporate Office: A-45, First Floor, Mohan Co-Operative Industrial Estate, New Delhi - 110044 Tel: +91 (11) 4128 1100, Fax: +91 (11) 4128 1101,


E-mail: compliance@cleducate.com, Website: www.cleducate.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE AND CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS PERIOD ENDED DECEMBER 31, 2024

The Board of Directors of the Company, at the meeting held on February 04, 2025, approved the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months period ended December 31, 2024.

Report have been posted on the Company's website at https://www.cleducate.com/quaterlyresults.html and can be accessed by scanning the following QR code.

Place: New Delhi



Date: February 04, 2025 Vice Chairman and Managing Director

EXIT OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS OF THE MANGAL STEEL ENTERPRISES LTD

Registered Office: 248, G.T. Road (N), Salkia, Howrah - 711106; Tel. No.: +91-33-2655-8331 / 2655-8332 / 2655-8333 / 2655-7807; Fax: +91-33-2655-0468; Email ID: msel@steelmangal.com; Website: https://www.steelmangal.com/index1.htm his Exit Offer Public Announcement dated February 04, 2025 ("Exit Offer PA3") is being issued by

ntelligent Money Managers Private Limited ("Manager to the Exit Offer") for and on behalf of Mr. Adarsh Garodia, member of the Promoter Group ("the Acquirer") of Mangal Steel Enterprises Ltd ("MSEL"/"the Company") to the remaining Public Shareholders ("Residual Public Shareholders") of the Compan pursuant to Regulation 27(1)(a) of Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares Regulations, 2021 ("SEBI Delisting Regulations") in accordance with terms and conditions set out in the Exit Letter of Offer dated August 13, 2024 ("Exit LOF"). This Exit Offer PA3 is in continuation to and should be read in conjunction with the Exit LOF. Capitalizer

erms used but not defined in this Exit Offer PA3 shall have the same meaning assigned to them in the ExitLOF. 1. DATE OF DELISTING The Calcutta Stock Exchange Limited ("CSE") vide its letter reference no. CSE/LD/16324/2024 dated

August 02, 2024 has informed that the equity shares of the Company have been delisted from CSE

effective from August 05, 2024 ("Delisting Date"). . INVITATION TO RESIDUAL PUBLIC SHAREHOLDERS TO AVAIL THE EXIT OFFER

A separate Exit LOF along with Exit Offer Application Form containing the terms and conditions for participation of the Residual Public Shareholders during the period of one year starting from the date of delisting i.e., from Monday, August 05, 2024 to Monday, August 04, 2025 (both days inclusive) ("Exit Period") has already been dispatched on August 13, 2024 by the Acquirer to the Residual Public Shareholders whose names appears in the register of members as on Friday, August 09, 2024 The Residual Public Shareholders are requested to avail the Exit Offer by tendering their equity shares at Rs. 1,601/- per equity share ("Exit Price") during the Exit Period, by submitting the required

documents to the Registrar to the Exit Offer as set out in Exit LOF. 2.2. In the event the Residual Public Shareholders do not receive or misplace the Exit LOF, they may obtain a copy by writing to the Registrar to the Exit Offer with the envelope marked "MSEL-EXIT OFFER". A soft copy of this Exit LOF along with Exit Offer Application Form can be downloaded from the website of the Company i.e., https://www.steelmangal.com/index1.htm or the website of the

Manager to the Exit Offer i.e. www.intelligentgroup.org.in/. 3. For the period/ quarter starting from February 01, 2025 and ending on April 30, 2025, follow-up communication to Residual Public Shareholders has been sent on February 04, 2025 by registered post in terms Regulation 27(1)(b) of SEBI Delisting Regulations by the Acquirer to the Residual Public Shareholders whose names appears in the register of members as on Friday, January 31, 2025.

PAYMENT OF CONSIDERATION TO RESIDUAL PUBLIC SHAREHOLDERS Subject to fulfilment of the terms and conditions mentioned in the Exit LOF, the Acquirer intends to make payment on a monthly basis, within 10 working days at the end of the calendar month in which equity shares have been validly tendered ("Monthly Payment Cycle"). Payments will be made only to those Residual Public Shareholders who have validly tendered their equity shares by following the instructions as set out in the Exit LOF and Exit Offer Application Form. The Acquirer reserves the right to make payment earlier. No equity shares have been validly tendered during the period from

November 01, 2024 to January 31, 2025. If any Residual Public Shareholders have any query with regard to this Exit Offer/ Exit Period, they may contact the Registrar to the Exit Offer or the Manager to the Exit Offer. All other terms and conditions of the Exit Offer as set forth in the Exit Offer PA and Exit Offer LOF shall remain unchanged:

WM ntelligent Money Managers Private Limited ABS Consultants Private Limited CIN: U65923WB2010PTC156220 CIN: U74140WB1991PTC053081 2nd Floor, YMCA Building, 25, Jawaharlal Nehru 4, B. B. D. Bag (East), Stephen House, Room No. Road, Kolkata - 700 087; 99, 6th Floor, Kolkata - 700 001 Tel. No.: +91-33-2230 1043, +91-33-2243 0153; Tel. No.: +91-33-4065 6289; Email: info@intelligentgroup.org.in; Fax: +91-33-2243-0153; Website: www.intelligentgroup.org.in/; Email: absconsultant99@gmail.com; Contact Person: Mr. Amit Kumar Mishra; Website: https://www.absconsultant.in/; SEBI Registration No.: INM000012169; Contact person: Mr. Uttam Chand Sharma; SEBI Registration Number: INR000001286: Validity Period: Permanent. Validity Period: Permanent.

For and on behalf of Acquirer Adarsh Garodia

financialexp.epapr.in

New Delhi

Date : February 04, 2025

जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U67190MH2007PLC74287 JM FINANCIAL पंजीकृत कार्यालयः 7वीं मंजिल, सेनर्जी, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई 400025 टी: +91 22 6630 3030 एफ: +911 22 6630 3223 | www. Jmfinancialarc.com

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित। पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले दीवान हाउसिंग एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ने प्रतिभृतिकरण और कराधान अधिनियम, 1962 की धारा 5 (1) (बी) के तहत सभी अधिकारों, शीर्षक और ब्याज के साथ–साथ इसके लिए बनाए गए अंतर्निहित सुरक्षा हित के साथ ऋण (नीचे उल्लिखित ऋण सहित) का एक पूल सौंपा है। वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफेसी अधिनियम") 29 मार्च, 2023 (''असाइनमेंट समझौता'') दिनांकित एक असाइनमेंट समझौते के माध्यम से जेएमएफएआरसी (जेएम) (यहां असिंजी के रूप में संदर्भित) के पक्ष में। नीचे हस्ताक्षरकर्ता . (जेएम) समनुदेशिती का प्राधिकृत अधिकारी है। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत। उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम 1976 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 3 के अधीन, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) (''उक्त उधारकर्ता(ओं)'') को आह्वान किया गया है कि वे उन्हें जारी किए गए संबंधित डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करें जो नीचे भी दिए गए हैं। उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर से उक्त उधारकर्ता को नोटिस दिया जाता है कि वे 60 दिनों के भीतर जेएम को भूगतान करें। इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से, नीचे दर्शाई गई राशियां, साथ ही उक्त मांग नोटिस में दिए गए विस्तृत ब्याज सहित, नीचे उल्लिखित तारीख से लेकर ऋण समझौते के तहत देय भुगतान और / या वसूली की तारीख तक। ऋण की देय चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में, निम्नलिखित परिसंपत्तियों को क्रमशः उक्त उधारकर्ता द्वारा जेएम के पास बंधक रखा गया है।

उधारकर्ता (ओं) / गारंटर(ओं) का नाम	एनपीए की तिथि के साथ डिमांड नोटिस की तिथि और राशि	सुरक्षित परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
(एलसी नं. 11900001564, नोएडा	24.01.2025,	संपत्ति संख्या जी—128 (प्लॉट संख्या 128, ब्लॉक जी), क्षेत्रफल लगभग 181 वर्ग मीटर
सेक्टर–2 शाखा) जे.एन.सी कंस्ट्रक्शन	₹. 14,76,25,694 / —	यानि 216 वर्ग गज, साइट के अनुसार और छत / टेरेस अधिकारों के साथ, निर्माण के
प्राइवेट लिमिटेड (निदेशक श्री जितेन्द्र	(चौदह करोड़ छिहत्तर लाख	अधिकारों के साथ अंतिम अनुमेय मंजिल, 'प्रीत नगर सहकारी गृह निर्माण सोसायटी
तनेजा के माध्यम से) (उधारकर्ता), चन्द्र	पच्चीस हजार छह सौ	लिमिटेड, कॉलोनी जिसे प्रीत विहार, दिल्ली — 92. के नाम से जाना जाता है, के लेआउट
प्रकाश, जितेन्द्र तनेजा, नानक चंद	चौरानबे रुपए मात्र)	प्लान में स्थित है पूर्व–30' चौड़ी सड़क से घिरा, पश्चिम–प्लॉट नंबर 129, उत्तर–30 '
(सह–उधारकर्ता)	चारानब रुपए मात्र)	चौड़ी सड़क, दक्षिण—15' सर्विस लेन।

यदि उक्त उधारकर्ता जेएम को पूर्वोक्त भूगतान करने में विफल रहते हैं, तो जेएम अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सूरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा. लागत और परिणामों के संबंध में पूरी तरह से उक्त उधारकर्ताओं के जोखिम पर। अधिनियम के तहत उक्त उधारकर्ताओं को जेएम की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए उकसाता है। अधिनियम के तहत कारावास औरध्या जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा। दिनांक : 05.02.2025

हस्ता / - (प्राधिकृत अधिकारी) जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अरण्य-ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रही है।

स्थान : दिल्ली

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड hola कार्योरेट कार्यालय : चोला क्रेस्ट, सी 54 एवं 55, सुपर बी-4, धिक वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई-600032. भारत, शाखा कार्यालय : प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर ६, मेन पुसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

कब्जा सूचना नियम 8(1) के अधीन

जबकि, अधोहरताक्षरी ने मैसर्स चौलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनेंस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आरितयों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, इसमें आगे अधिनियम कहा गया है, के अधीन और प्रतिमृति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सुधना(ए) कालम (सी) में वर्णित तिथियों को जारी की थीं, जिसमें कर्जदारों, जिनके नाम कालम (बी) में निदर्शित किए गए हैं, से कालम (डी) में निदर्शित बकाया राशि का भूगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतदद्वारा कर्जदार(री) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कालम (ई) में वर्णित कम्पनी के पास बंधक संपत्ति का कब्जा कालम (एफ) में निदर्शित तिथियों को प्राप्त कर लिया है।

कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को कालम (ई) में वर्णित संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेत सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार मैसर्स घोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायमैंस कम्पनी लिमिटेड की कालम (डी) में निदर्शित बकाया राशि और उस पर ब्याज

प्रतिभृतिकरण अधिनियम की चारा 13 (8) के तहत कर्जदार बिक्री की अधिसूचना से पहले पूरी बकाया राशि सभी लागतों, प्रभारों तथा खर्चों सहित युक ाकर प्रत्याभृत आस्ति छुडा सकते हैं।

面. Hi	आवेदक का नाम एवं पता तथा ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि	बकाया याश	कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण	कथा। की विभिन		
(y)	(1 1)	(eff)	(की)	(€)	((74)		
1.	ऋण खाता सं. HE01EDL00000016216, HE01EDL00000018204) 1. बालाजी ट्रॉमा सॅटर प्राइवेट लिमिटेड (इसके निद. शक जमेश कुमार भारद्वाज के मध्यम से) (आवेदक) 2. नीतू के (सह-आवेदक) 3. उमेश कुमार भारद्वाज (सह-आवेदक)	0811-2024	歌. 1,23,87,945/- 08-11-2024 可称	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : प्लॉट परिमाप 55			
	 मनोज भारद्वाज (सह-आवेदक) फॉट नंबर 734, हल्दीनी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-2 अन्य पता : फ्लैट नंबर 4डब्ल्यू-804, परी चीक, गुरिंज संक्टर-पी 3, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201310 		चौहददी निम्नानुसार :- पूरव : खसरा नंबर 740: पश्चिम : खसरा नंबर 734 का बाकी हिस्सा, उत्तर : डीएससी रोड, दक्षिण : खसरा नंबर 734 का बाकी हिस्सा	04-02-2025			

JM FINANCIAL

जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

निगमित पहचान संख्या : यू67190एमएच2007पीएलसी74287 पंजीकृत कार्यालय : 7वां तल, सिनर्जी, अप्पासाहेब मराठी मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई- 400025,

वेबसाइट- www.jmfinancialarc.com संपर्क व्यक्तिः (1) पंकन कश्यप- 9136178689, (2) रोहन सावंत- 9833143013, (3) प्रशांत मोंडे- 022 - 6224 1676,

ई-नीलामी विक्रय सुचना - नया विक्रय

पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने एक एसाइंमेंट अनुबंध दिनांकित 29 मार्च 2023 ("एसाइंमेंट अनुबंध") के द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("सरफॉएसि अधिनियम") की धारा 5 (1) (बी) के अंतर्गत समस्त अधिकारों, स्वामित्व एवं हित के साथ रेखांकितकारी प्रतिभृति हित के साथ ऋण (निम्न वर्णित ऋणों सहित) का एक पुल, जेएमएफएआरसी (जेएम) (यहां इसमें एसाइनी के रूप में संदर्भित) जेएमएफएआरसी–अरण्य–ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत्, के पक्ष में सौंप दिया है। यह अधिसूचित किया जाता है कि पीसीएचएफएल को एसाइंमेंट / सर्विस अनुबंध के द्वारा समस्त परिचालनगत एवं कार्यप्रणालियों वाली प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने हेत् सेवा प्रदात्री / संग्रहण अभिकत्री के

रूप में कार्य करने के लिये प्राधिकृत एवं नियुक्त किया गया है। उधारकर्ता / ओं से बकाया राशि की वसूली करने हेतु सरफॉएसि अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां नीचे वर्णित प्रतिभृत परिसंपत्ति का अधिग्रहण किये जाने के अनुसरण में, अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा यहां निम्न उल्लिखितानुसार अचल संपत्ति, जो कि अधिग्रहण के अधीन है, जिसके विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत हैं, के क्रयार्थ "जैसी है जहां है आधार", 'जैसी है जो है आधार' तथा 'वहां जो कुछ भी है आधार' पर प्रस्ताव निमंत्रित किए जाते हैं :

ऋण कोड/शाखा/ ऋणकर्ता(ओं)/ सह—ऋणकर्ता(ओं)/ गारंटर(रों) के नाम	मांग सूचना तिथि एवं राशि	संपत्ति पता—अंतिम	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि जमा (धराज) (आरपी का 10%)	बकाया राशि (27—01—2025)
ऋण कोड संख्याः 1190001379, नोएडा — सेक्टर 2 (शाखा), विवेक गुप्ता (उधारकर्ता), सोनल गुप्ता (सह—उधारकर्ता 1)	दिनांक : 30–04–2021, रु. 3502609/– (रुपये पैतीस लाख दो हजार छह सौ नौ मात्र)	संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश जिनकी सीमा का विस्तार इस प्रकार है :— फ्लैट संख्या— एम—711, 7वीं मंजिल टावर— मर्करी द एलियन कोर्ट सेक्टर— सी3 ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश भारत 201102	रु. 282000 / – (रुपये अड्डाईस लाख बीस हजार मात्र)	रु. 282000 / – (रुपये दो लाख बयासी हजार मात्र)	रु. 5612315 / – (रुपये छप्पन लाख बारह हजार तीन सौ पंद्रह मात्र)
ऋण कोड संख्या : 20000042953, नोएडा — सेक्टर 2 (शाखा), बिंदेश्वर प्रसाद (उधारकर्ता), विजय लक्ष्मी (सह—उधारकर्ता 1)	दिनांक : 04-11-2022, रु. 3138811/- (रुपये इकतीस लाख अड़तीस हजार आठ सौ ग्यारह मात्र)	संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश जिनकी सीमा का विस्तार इस प्रकार है :— फ्लैट नंबर—जे—908, 9वीं मंजिल टावर— जुपिटर, द एलियन कोर्ट, प्लॉट नंबर— जीएच—3/1 सेक्टर—सी 3 ट्रोनिका सिटी उत्तर प्रदेश 201010, सीमाएं :— उत्तर : फ्लैट नंबर—907, दक्षिण : खुला, पूर्व : खुला, पश्चिम : प्रवेश	रु. 2350000 / – (रुपये तेईस लाख पचास हजार मात्र)	रु. 235000 / – (रुपये दो लाख पैंतीस हजार मात्र)	रु. 4612197 / — (रुपये छियालीस लाख बारह हजार एक सौ सत्तानबे मात्र)

अंतिम तिथि : 13-03-2025 को 4.00 बजे से पूर्व

ग्रहण करें।

ऋणकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता हेतु सरफॉएसि अधिनियम के अंतर्गत 30 दिवसीय साँविधिक विक्रय सचना उपरोक्त उल्लिखित ऋणकर्ता 🖊 गारंटर को एतद्दवारा सचित किया जाता है कि वे धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सचना में उल्लिखितानसार राशि का नीलामी की तिथि से पूर्व की तिथि तक उपार्जित ब्याज के साथ पूर्ण भूगतान कर दें। भूगतान करने में विफल रहने पर संपत्ति की नीलामी / बिक्री कर दी जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई हो, की वसूली

ऋणकर्ता / गारंटर से ब्याज व लागत के साथ की जायेगी। दिनाँक : 05/02/2025, स्थान : दिल्ली हस्ता. /- (प्राधिकृत अधिकारी), (अरण्य - ट्रस्ट)



पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड सीआईएन: L65910MH1984PLCO32639

पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नंबर-601, 6वीं मंजिल, पीरामल अमीति बिल्डिंग, पीरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन Capital & Housing Finance सामने फायर स्टेशन, एलबीएस मार्ग, कुरिया (पश्चिम), मुंबई — 400070 टी: +91 22 3802 4000 शाखा कार्यालयः प्लॉट नं.--६, ब्लॉक ए, सेक्टर--2, नोएडा, यू.पी.--201 301

संपर्क व्यक्तिः 1. निक्की कुमारः – 9650606340, 2. पंकज कश्यप – 9136178689, 3. रोहन सावंतः – 9833143013 ई-नीलामी बिक्री सुचना - आगामी बिक्री

उधारकर्ता/ओं से देय राशि की वसूली के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित स्रक्षित परिसंपत्ति का कब्जा लेने के अनुसरण में, नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो भौतिक कब्जे में है, व खरीद के लिए "जहां है जैसा है", "जो है जैसा है वैसा" और "जो कछ भी है" के आधार पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

ऋणकोड / शाखा / उघारकर्ता (ओ) / सह—उघारकर्ता(ओ / गारंटर(ओ)	मांग सूचना की तिथि और राशि	संपत्ति का पता ऋअंतिम	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी) (आरपी का 10 प्रतिशत)	बकाया राशि (03—02—2025)
ऋण कोड संख्याः 09600001402, दिल्ली — पीतमपुरा (शाखा), राधेश्याम (उधारकती), रेखा सिंह (सह—उधारकर्ता 1)	दिनांकः 14–06–2021, रु.2313461 / –, (रुपये तेईस लाख तेरह हजार चार सौ इकसठ मात्र)	संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसमें विस्तार है संपत्ति संख्या आरजेड—118, तीसरी मंजिल खसरा नंबर 419, कैलाश पुरी, गांव नासिर पुर, पालम गांव नासिर पुर, पालम नई दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली:— 110045 उत्तर की ओर सीमाएः गली 20 फीट चौड़ी दक्षिणः प्लॉट का हिस्सा पूर्वः अन्य की संपत्ति पश्चिमः अन्य की संपत्ति	रु. 1765800/-, (रु. सन्नह लाख पैंसठ हजार आठ सौ मात्र)	रु. 176580/-, (रु. एक लाख छिहत्तर हजार पांच सौ अस्सी मात्र)	रु. 3846964 / –, (रु. अड़तीस लाख छियालीस हजार नौ सौ चौसठ मात्र)
ऋण कोड संख्याः ड0006043, दिल्ली (शाखा), अमित कुमार शर्मा (उधारकती),	दिनांकः 17–08–2023, रु. 3944594.43 / –, (रु. उनचालीस लाख चौवालीस हजार पांच सौ चौरानबे मात्र तथा तैंतालीस पैसे)	संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसमें विस्तार है:— मकान नंबर 267 तीसरी मंजिल मोहल्ला राम नगर गाजियाबाद 201001	रु. 3330000 / –, (रु. तैंतीस लाख तीस हजार मात्र)	रु. 333000 / –, (रु. तीन लाख तैंतीस हजार मात्र)	रु. 4886040 / –, (रु. अड़तालीस लाख छियासी हजार चालीस मात्र)

ई-नीलामी की तिथि: 20-02-2025, प्रात: 11.00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ), बोली जमा करने की अंतिम तिथि: 19-02-2025, शाम 4.00 बजे से पहले

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया www.piramalfinance.com/e-Auction.html पर दिए गए लिंक को देखें या हमें piramal.auction@piramal.com पर ईमेल करें।

उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता को सरफेसी अधिनियम के तहत वैधानिक 15 दिनों की बिक्री सूचना

उपर्यक्त उधारकर्ता / गारंटर को सचित किया जाता है कि वे धारा 13(2) में उल्लिखित राशि को नीलामी की तारीख से पहले अर्जित ब्याज के साथ परी राशि का भगतान करें. अन्यथा संपत्ति की नीलामी / बेच दी जाएगी और शेष बकाया. होगाा. यदि कोई हो तो उधारकर्ता / गारंटर से ब्याज और लागत सहित वसल किया जाएगा। हस्ता / – (प्राधिकृत अधिकारी) दिनांक: 05.03.2025 स्थान : दिल्ली पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

APRIGLOBAL पंजीकृत एवं कार्योहेट कार्यालय :-502, टायह-ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, शेनापति बायट मार्क, लोगह परेत, मुंबई-400013,

परिशिष्ट IV कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

सर्किल कार्यालय :-9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ही-110060

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के प्राधिकत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) को नीचे दिए विवरण के अनुसार मांग सूचना(एं) जारी की थीं, जिनमें उनसे सूचना में वर्णित बकाया राशि का भूगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतदद्वारा कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया है। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभृत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है। कर्जदारों को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सामान्य रूप से इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार कर्जदारों पर सीजीसीएल की बकाया राशि तथा उस पर व्याज का भुगतान करने के बाद ही किया जा सकता है।

सं	क्लबंद्र(व)/ नास्टर(व) का नान	अत्यानूच जात्त्व का यनन (अयल चन्यात्व)	तिथि और राशि	क्षणा का स्ताब
1	(ऋण खाता संख्या LNMEPU4000126885 (पुराना) 80300005781400 (नया)	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : भूमि एवं भवन, सम्पत्ति सं. ए-157 (प्लॉट नंबर 157 ए-ब्लॉक), खसरा नंबर 318/79 का भाग, आबादी मेन	12-11-2024 〒 57,63,351/-	01-02-2025
000000000000000000000000000000000000000	पूसा रोड शाखा) सुरेश कुमार सिंह (कर्जवार) दीप्ति सिंह, मैसर्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (सह-कर्जदार)	विकास मार्ग, शकरपुर खास, इलाका शाहदरा, दिल प्रथम तल पर निर्मित कॉमर्शियल पोर्शन (एल-टा	इप), सीलिंग तक म्पूर्ण स्ट्रक्चर के ानुसार : उतार :	, भूमि क्षेत्रफल अलावा कॉमन मेन रोड, दक्षिण
2150	भान : दिल्ली / एनसीआर थि : 05–02–2025	वास्ते केंग्री :	हस्ता /- (१ लोबल कैपिटल लिग्	ग्राधिकृत अधिकारी) स्टेड (सीजीसीएल)



एरो ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट) सीआईएन : L74899DL1988PLC031510

पंजीकृत कार्यालय : 1001, 10वाँ तल, डीएलएफ टॉवर ए, जसोला, नई दिल्ली— 110025

दूरभाष : 011— 41686169, **फैक्स** : 011— 26941984, **ई—मेल** : investorgrievance@arotile.com, वेबसाइट : www.arotile.com 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही तथा नौ माह के पथक लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम का साराँश

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 31—12—2024	समाप्त वर्ष 31-03-2024	समाप्त तिमाही 31—12—2023
		(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1	परिचालनों से कुल आय	3,553.16	15,547.23	3,355.84
2	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर, आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	37.29	340.24	34.67
3	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	37.29	340.24	34.67
4	कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (आपवादिक एवं / अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	(0.44)	131.40	7.97
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ / (हानि) (कर पश्चात्) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात्) से समाविष्ट]	2.38	135.42	7,77
6	प्रदत्त समता अंश पूंजी	1,530.00	1,530.00	1,530.00
7	आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्याँकन आरक्षित छोड़कर) पूर्ववर्ती वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन—पत्र में निदर्शितानुसार	300000000000000000000000000000000000000	dan maka mewo	
8	आय प्रति अंश (रु. 10 / — प्रत्येक का) (परिचालनरत् एवं अपरिचालित परिचालनों हेतु)— 1. मूलभूत : 2. तरलीकृत :	0.02	0.89	0.05
	4	0.02	0.89	0.05

स्थान : होसूर

दिनाँक : 04-02-2025

1) उपरोक्त साराँश, संशोधितानुसार सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास फाइलबद्ध त्रैमासिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक साराँश है। त्रैमासिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, स्टॉक एक्सचेंज(जों) की वेबसाइटों www.bscindia.com तथा www.nscindia.com पर तथा कंपनी की वेबसाइट www.arotile.com पर उपलब्ध है तथा इसे नीचे दिये गये क्युआर कोड को स्कैन करके भी देखा व प्राप्त किया जा



बोर्ड हेत् तथा उसकी ओर से हस्ता. /-सुनील कुमार अरोड़ा प्रबंध निदेशक डीआईएन : 00150668



स्टर्लिंग दूल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः डीजे-1210, 12वीं मंजिल, डीएलएफ टॉवर-बी, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली-110025 वेबसाइटः www.stlfasteners.com, ईमेल आईडीः csec@stlfasteners.com, CIN: L29222DL1979PLC009668

31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए स्टैंडअलोन और समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का उद्धरण

(₹ लाख, प्रति शेयर डेटा को छोडकर)

		स्टैंडअलोन						समेकित					
क्र. सं.	विवरण	अनअंकेक्षित				अंकेक्षित	अनअंकेक्षित				अंकेक्षित		
		समाप्त तिमाही			वर्ष से दिन		समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही			वर्ष से दिन		समाप्त वर्ष
		31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024	31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024
1	संचालन से कुल आय	15,508.12	16,836.81	14,267.62	48,637.48	44,666.91	61,369.79	26,268.90	28,590.65	23,396.52	83,255.86	66,832.00	93,851.11
2	अवधि कें लिए शुद्ध लाम/(हानि) (कर से पूर्व, एक्सेप्सनल और/या एक्स्ट्राऑर्डनरी मदों)	1,160.57	1,607.47	1,172.99	4,314.48	3,563.99	5,174.69	1,776.19	2,305.10	1,752.27	6,474.39	5,048.30	7,180.02
3	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (एक्सेप्सनल और/या एक्स्ट्राऑर्डनरी मदों के बाद)	1,160.57	1,607.47	1,172.99	4,314.48	3,603.70	5,214.40	1,776.19	2,305.10	1,752.27	6,474.39	5088.01	7,219.73
4	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (एक्सेन्सनल और/या एक्स्ट्राऑर्डनरी मदों के बाद)	831.58	1,188.98	878.94	3,162.00	2,683.89	3,884.53	1,359.98	1,747.33	1,358.38	4,948.14	3911.47	5,536.50
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि हेतु शामिल लाभ / (हानि) (कर पश्चात) एवं अन्य व्यापक आय (कर पश्चात)]	425.36	1,022.18	822.61	2,573.12	2,627.14	3,538.31	953.31	1,580.17	1,303.37	4,358.10	3856.45	5,188.88
6	इक्विटी शेयर पूंजी (१ 2/— प्रत्येक का अंकित मूल्य)	720.48	720.48	720.48	720.48	720.48	720.48	720.48	720.48	720.48	720.48	720.48	720.48
7	अन्य इक्विटी			-	(-	14	42,442.02						43,990.37
8	प्रति शेयर आय (र 2 / – प्रत्येक) – (जारी और बंद परिचालन के लिए) बेसिक डाइल्यूटिड (र)	2.31 2.28	3.30 3.27	2.44 2.44	8.78 8.69	7.45 7.45	10.78 10.77	3.78 3.73	4.85 4.81	3.77 3.77	13.74 13.59	10.86 10.86	15.37 15.35

टिप्पणियाँ:

- उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। कंपनी के वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई) (www.bseindia.com), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) (www.nseindia.com) और कंपनी (www.stifasteners.com) की वेबसाइट पर उपलब्ध है। नीचे दिए गए क्युआर कोड को स्कैन करके इसे एक्सेस किया जा सकता है।
- 2. स्टर्लिंग टुल्स लिमिटेड ("होल्डिंग कंपनी") के 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के लिए स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 4 फरवरी 2025 को आयोजित उनकी संबंधित बैठक में अनुमोदित किया गया। होल्डिंग कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों ने इन समेकित वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की है।
- उपरोक्त परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (संशोधित) के तहत अधिसूचित लागू भारतीय लेखा मानकों ("इंड एएस") की मान्यता और माप सिद्धांतों, भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 की प्रस्तुति और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुपालन में तैयार किए गए हैं।
- होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल ने 1 फरवरी 2024 की अपनी बैठक में समामेलन की योजना के माध्यम से पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी हरियाणा इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के समामेलन पर विचार किया और उसे मंजूरी दी। इसके बाद, योजना को माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ("एनसीएलटी") की दिल्ली पीठ में दायर किया गया और 21 जनवरी 2025 को हुई अंतिम सुनवाई में एनसीएलटी ने आदेश सुरक्षित रख लिया है।



निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से स्टर्लिंग दूल्स लिमिटेड हस्ता./ अतुल अग्रवाल

प्रबंध निदेशक

DIN No. 00125825

Criminal Court. Ludhiana In The Court Of Ms. Lovepreet Kaur Swaich JMIC, Ludhiana Kotak Mahindra Bank

Vs. Suresh Chandra Meghwal

CNR NO: PBLD03-039354-2020 COMA/ 7445/2020 Notice To: 2. babru lal magwal address- 294 kalibhint meghwal fala tehsil lasadiya

satisfaction of this court that you the accused above named cannot be served ir the ordnary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 27-02-2025 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence Given under my hand and the seal of the court. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_n otice&district=ludhiana JMIC Ludhiana

distt udaipur rajasthan

Whereas it has been proved to the

Criminal Courts, Ludhiana

JMIC ludhiana COMA/2823/2020 Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana Next Date: 25-02-2025 U/s:138 of N.I ACT Police Station:

publication notice for proclamation under section 82 CRPC Kotak Mahindra Bank Naseem Khan

COMA/2823/2020 CNR NO. PBLD03-011510-2020 Notice To: 1. naseem khan s/o not known r/o house no : 112 mohalla all khurd 3 k kairana muzaffarnagar U.P 247774 Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named can't be served in the ordinary way of service. hence this proclamation under section 82 crpc is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 25-02-2025 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation, take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. given under my hand and the seal of the court. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&dist rict=ludhiana JMIC Ludhiana

.वितीय ऋणदाता

_कॉर्पोरेट देनदार

फॉर्म संख्या एनसीएलटी 3ए विज्ञापन विवरण याचिका [नियम 35 देखें]

अंतरिम आवेदन संख्या 4598 / 2024

कंपनी याचिका (आईबी) संख्या 1083/पीबी/2018 इस मामले में:

एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

एडेल लैंडमार्क्स लिमिटेड आवेदन की सूचना

एडेल लेंडमार्कस लिमिटेड के रिजॉल्युशन प्रोफेशनल द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 की धारा 66 और 67 के साथ धारा 25(2)(जे) के तहत दायर एक आवेदन 22.01.2025 को सनवाई के लिए आया, जिसमें निम्नलिखित पक्ष थे /प्रतिवादी उपस्थित नहीं थे। उक्त आवेदन अब माननीय न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली बेंच-।।। के समक्ष दिनांक 28.02.2025 को सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है।

यदि निम्नलिखित व्यक्ति उक्त आवेदन का विरोध करना बाहते हैं तो उन्हें अपनी इच्छा एडेल लैंडमार्करा लिमिटेड के रेजोल्युशन प्रोफेशनल को ईमेल adell@sumedhamanagement.com पर व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से दो दिन पहले तक बतानी चाहिए। आवेदन की प्रति प्रस्तुत करने में असफल रहने पर माननीय न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा उचित आदेश पारित किया जा सकेगा।

आवेदन की एक प्रति नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा उपरोक्त व्यक्तियों / प्रतिवादियों को सूचना देने पर उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रतिवादी सं.	उत्तरदाताओं का नाम	उत्तरदाताओं का अंतिम ज्ञात पता
2	श्री प्रविन्द्र कुमार	गाँव-तुलसीपुर तहसील, खतौली. मुजपफरनगर, उत्तर प्रदेश-251201
3	श्री संदीप	12, तुलसीपुर, तहसील, खतीली, मृजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश-251314

स्थान – मुंबई

Dear Members.

श्री उदयराज पटवर्धन आईपी घ्यंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-001/IP-PO0024/2016-17/10057 असाइनमेंट संख्या -AA1/10057/02/311225/107784 के लिए प्राधिकरण

(31 दिसंबर 2025 तक वैघ) समाधान पेशेवर का पंजीकृत पता कोहिन्र स्क्वायर, वेस्ट टॉवर, बी विंग, जीउस, 4407, 44वीं मंजिल,

एन.सी. केलकर रोड, शिवाजी पार्क, दादर (पश्चिम), मुंबई सिटी, महाराष्ट्र, 400028 एडेल लैंडमार्क्स लिमिटेड के लिए समाघान पेशेवर

Newtime Infrastructure Limited Regd. Office: Begampur Khatola, Khandsa, Near Krishna Maruti, Gurgaon, Basai Road,

Tel. No.: 91-7419885077 CIN: L24239HR1984PLC040797 NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Haryana -12200

The 02nd Extra-ordinary General Meeting ("EGM") of the members of Newtime Infrastructure Limited ("the Company") will be held on Thursday, 27th February, 2025 at 12:00 Noon at the Registered Office of the Company at Begampur Khatola, Khandsa, Near Krishna Maruti, Gurgaon, Basai Road, Haryana -122001 in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with any MCA Circulars related thereto, to transact the businesses as set out in the notice of EGM.

In compliance with the circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI), the electronic copies of Notice of the EGM will be only sent to shareholders whose name appear in the register of members as at the closing hours of business on Friday, 31st January 2025 and whose email address are registered with the depository participants or with the Company or M/s. Beetal Financial & Computer Services (P) Limited, (Registrars & Share Transfer Agent of the Company).

The said documents will also be available at company's website at www.newtimeinfra.in and CDSL website www.evotingindia.com and also at BSE Website i.e. www.bseindia.com. In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2015 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the members

are provided with the facility to cast their vote electronically through remote e-voting (prior to EGM) and e-voting (during the EGM) through services provided by CDSL. The remote e-voting period will commence at 10:00 AM, Monday, 24th of February 2025 and ends on 5:00 PM on Wednesday, 26th of February 2025. During this period Members may cast their vote electronically, E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond **5:00**

PM on Wednesday, 26th of February 2025. The e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the EGM would not be allowed to vote at the EGM. Once the member cast vote on a resolution, the Member shall

not be allowed to change it subsequently, Detailed instructions for remote e-voting, joining the EGM and e-voting during the EGM is provided in the Notice of EGM. The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Thursday, 20th of December 2023 ('cut-

Any person, who is a member of the Company as on the cut-off date is eligible to cast vote on all the resolutions set forth in the Notice of EGM using remote e-voting or e-voting at the EGM. A person who ceases to be a member as on Cut-off date should treat this Notice for

information purposes only. A person who has acquired shares and becomes a member of the Company after the electronic dispatch of notice of the EGM and holding shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request to CDSL. However, if the person is already registered with CDSL for remote e-voting then the existing user ID and password can be used for casting

Members who are holding shares in physical form or has not registered their e-mail address with the Company/Depositories, can obtain login credentials for e-voting as per the following procedure:

For members holding shares in the physical form, kindly provide your name, folio number, e-mail address to be registered along with scanned copy of the share certificate (front and back), self-attested scanned copy of the PAN Card and self-attested scanned copy of Aadhar Card by e-mail to the Company at newtimeinfra2010@gmail.com.

For members holding shares in the demat form, please update your e-mail address through your respective Depository Participants.

If you have any guery relating to e-voting facility, please contact CDSL or send an email to www.evotingindia.com or call 1800225533.

The results of the e-voting will be declare within 2 working days from the conclusion of EGM and the results so declared along with Scrutinizer's Report shall be placed on the company's website and the website of Stock Exchange (www.bseindia.com).

> For Newtime Infrastructure Limited **Jyoti Verma**

> > (Company Secretary)

Place: Haryana Date: 04.02.2025

"IMPORTANT" Whilst care is taken prior to acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

दिनांकः 04 फरवरी, 2025 स्थानः फरीदाबाद

www.readwhere.com